

सं: 1:05:138:I:सीएस  
दिनांक: 29.05.2023

<p><b>National Stock Exchange of India Limited,</b> Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) <b><u>MUMBAI – 400 051.</u></b></p> <p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051</p>	<p><b>Bombay Stock Exchange Limited,</b> Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, <b><u>MUMBAI – 400 001.</u></b></p> <p>बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001</p>
---	--

विषय : समाचार प्रकाशन- वित्तीय परिणाम

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किए गए समाचार पत्र प्रकाशन की एक प्रति संलग्न है।

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद ,

भवदीय ,  
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)  
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव  
[mk\\_agrawal@pfcindia.com](mailto:mk_agrawal@pfcindia.com)



**Uber partners GeM to offer taxi services to govt offices, PSUs**

Uber has partnered with public procurement portal government e-market place (GeM) to provide services to government personnel, departments, agencies and public sector units. "It will be a kind of corporate service. At present, we have started the service on a pilot basis and gradually it will

be available for all the government ministers, departments, agencies and public sector units (PSUs). We are planning to go phase by phase," an official said. The company would provide the service at a fixed price with zero cancellation charges and no surge pricing. Uber has registered at the GeM portal,

which was launched in 2016 by the commerce ministry for buying goods and services by central ministries and departments to bring transparency in government procurement. Cab and taxi services are the second highest category of services at the GeM portal. **PTI**

**G20 INDIA 2023**

**POWERING GREEN PROGRESS**

**पी एफ सी PFC**  
(A Maharatna Company)

**HIGHEST EVER ANNUAL PROFIT AFTER TAX**

Profit After Tax up by **16%**    Healthy dividend of ₹ **13.25** /Share    Net NPA Ratio **1.07%**

**Extract of Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2023** (₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	10,184.89	9,870.37	39,651.75	38,545.40	20,060.86	18,853.18	77,568.30	76,261.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	4,281.21	3,200.08	14,170.62	12,227.65	7,761.82	5,445.92	26,496.07	23,382.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	4,281.21	3,200.08	14,170.62	12,227.65	7,761.82	5,445.92	26,496.07	23,382.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	3,492.27	2,609.45	11,605.47	10,021.90	6,128.63	4,295.90	21,178.59	18,768.21
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,695.09	2,496.45	11,445.80	10,202.73	6,975.34	3,919.31	20,047.88	18,889.78
6	Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/- each)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
7	Other Equity (As per Audited Balance Sheet as at 31 <sup>st</sup> March)	NA	NA	65,562.15	56,710.20	NA	NA	81,518.41	69,036.16
8	Securities Premium Account	2,776.54	2,776.54	2,776.54	2,776.54				
9	Net worth	68,202.23	59,350.28	68,202.23	59,350.28				
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	3,62,637.83	3,20,128.13	3,62,637.83	3,20,128.13				
11	Debt Equity Ratio	5.32	5.38	5.32	5.38				
12	Earnings Per Share (EPS) (Face value ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)*								
	(a) Basic EPS (in ₹)	13.23	9.88	43.96	37.96	17.71	12.14	60.19	53.08
	(b) Diluted EPS (in ₹)	13.23	9.88	43.96	37.96	17.71	12.14	60.19	53.08

**Notes:**

- These audited financial results have been reviewed & recommended by the Audit Committee and subsequently approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 27.05.2023. The same have been audited by Joint Statutory Auditors of the Company viz Dass Gupta & Associates, Chartered Accountants and Prem Gupta & Company, Chartered Accountants in terms of Regulation 33 & 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchanges' websites [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com).
- The Board of Directors of the Company has recommended final dividend @ 45% on the paid up equity share capital i.e. ₹4.50 per equity share of ₹10 each for the financial year 2022-23, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting. The Company had also paid Interim dividend of ₹8.75 per equity share of ₹10 each for the FY 2022-23.
- For other applicable disclosures as required under Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, refer detailed format of the financial results filed with the stock exchanges ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com).

For and on behalf of Board of Directors

Place : New Delhi  
Date : 27.05.2023

**PRODUCTS & SERVICES**

Project Term Loans    Debt Refinancing    Renewable/ E-Mobility    Parts    Waste to Energy    Nuclear Energy    Metro    Refineries    Bio Ethanol

**POWER FINANCE CORPORATION LIMITED**  
(A Maharatna Company)

"Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001  
Website : [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com) | CIN : L65910DL1986G1024862

(Ravinder Singh Dhillon)  
Chairman and Managing Director  
DIN - 00278074



